



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 84] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 1977 वैशाख 29, 1899

No. 84] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 1977 VAISAKHA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICE

#### IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th May 1977

SUBJECT.—Import of edible oils and oil seeds under free licensing scheme.

No. 27-ITC(PN)/77.—Attention is invited to the provisions contained in Appendix 2 of the Import Trade Control Policy (Volume I) for April, 1977—March, 1978, as well as to those contained in Public Notice No. 6-ITC(PN)/77 dated the 17th January, 1977, as amended by Public Notice No. 7-ITC(PN)/77 dated the 24th January, 1977, regarding import of edible oils (both refined and un-refined) and oil seeds.

2. On a review of the position, it has been decided as follows:—

- (1) All licences for edible oils/oil seeds under free licensing will be issued with a validity period of twelve months. However, the licences will be subject to the condition that the licensee must take firm commitments for import of oils/oil seeds within a period of three months from the date of issue of the licence, failing which the licence will be automatically deemed to have been invalidated for importation. The firm commitments will be opening of irrevocable letter of credit, or any other irrevocable commitment to import the goods,

- (ii) No extension in the period for making firm commitments or in the validity of the licence will be allowed
- (iii) All licences which have already been issued and against which no firm commitments by way of opening the irrevocable letter of credit, or any other irrevocable commitment to import the goods have been made within three months from the date of issue of such licences, will be automatically deemed to have been invalidated for importation
- (iv) All licences which have already been issued will be deemed to have been issued subject to the condition that irrevocable commitment to import the goods should be made within three months from the date of issue of the licences, failing which the licences will be deemed to have been automatically invalidated for importation
- (v) No fresh licences will be issued to a party who has already obtained a licence, unless it has actually imported the goods against the previous licence. A fresh licence will be granted only to the extent to which the previous licence held by that party has been utilised by way of actual imports as shown in the customs copy of the licence

A S GILL,

Chief Controller of Imports & Exports

### वाणिज्य मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचना

### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 मई, 1977

विषय —स्वतंत्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनो का आयात।

संख्या 27-आई टी सी (पी एन) / 77.—अप्रैल, 1977—मार्च 1978 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा० J) के परिशिष्ट 2 में और सार्वजनिक सूचना संख्या 7—आईटीसी (पीएन) 77, दिनांक 24 जनवरी, 1977 द्वारा यथा मशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 6—आईटीसी (पीएन) / 77 दिनांक 17 जनवरी, 1977 में निहित खाद्य तेलों (परिष्कृत और अपरिष्कृत दोनों) और तिलहनो के आयात से सम्बन्धित शर्तों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर निम्नलिखित अनुसार निश्चय किया गया है :—

- (i) स्वतंत्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों/तिलहनो के लिए सभी लाइसेंस 12 महीनो की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। लेकिन लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे कि लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी होने की तिथि से 3 महीनो की अवधि के भीतर तेलो तिलहनो के आयात के लिए पक्के सौदे अवश्य करने होंगे, ऐसा करने में असमर्थ रहने पर लाइसेंस आयात के लिए स्वतः अवैध कर दिया समझा जाएगा। पक्के सौदे अपरिवर्तनीय साख पत्र के या माल आयात करने के लिए किसी अथ अपरिवर्तनीय सौदे का प्रारम्भ करेगे।
- (ii) पक्के सौदे करने के लिए अवधि में वृद्धि करने के लिए या लाइसेंस की वैधता में वृद्धि करने के लिए किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) जो लाइसेंस पहले ही जारी कर दिए गए हैं और जिनके मद्दे अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलकर या माल के आयात के लिए कोई अन्य अपरिवर्तनीय सौदा करके उन लाइसेंसों के जारी होने की तिथि से तीन महीनो के भीतर कोई भी पक्का सौदा नहीं किया गया है तो ऐसे सभी लाइसेंस आयात के लिए स्वतः अवैध कर दिए गए समझे जाएंगे।

- (iv) पहले ही जारी कर दिए गए लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे कि लाइसेंस जारी होने की तिथि से तीन महीनों के भीतर माल आयात करने के लिए अपरिवर्तनीय वचनबद्धता कर ली जाएगी, ऐसा करने में असमर्थ रहने पर लाइसेंस आयात के लिए स्वतः अवैध कर दिए गए समझे जाएंगे।
- (v) जिस पार्टी ने लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर लिया है उसे तब तक नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि पहले लाइसेंस के मद्दे माल का वास्तव में आयात न कर लिया गया हो। नया लाइसेंस केवल उसी सीमा तक प्रदान किया जाएगा जिस सीमा तक पार्टी ने पहला लाइसेंस, उसकी सीमाशुल्क निकासी प्रति में यथा प्रदर्शित वास्तविक आयात करके उपयोग कर लिया है।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

